



# **BULANDSHAHR POLICE**



दिनांक 09 मार्च 2023

थाना स्याना

## अंकित हत्याकाण्ड में संलिप्त हत्यारोपी आलाकत्ल सहित थाना स्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.03.2023 की दोपहर में थाना स्याना क्षेत्र के ग्राम बैराफिरोजपुर निवासी अंकित पुत्र मुकेश की अपने बाग में बन्दर भगाते समय अभियुक्त सुमित पुत्र सोमपाल सिंह निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा मारपीट कर चाकू से अंकित के शरीर पर वार करके हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता मुकेश की तहरीर पर थाना स्याना पर मुअसं-74/2023 धारा 302 भादवि बनाम रोहित पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना करने पर रोहित की संलिप्ता न पाते हुए अभियुक्त सुमित द्वारा इस हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया था।

आज दिनांक 09.03.2023 को थाना स्याना पुलिस को अभिसूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त हत्याकाण्ड में संलिप्त अभियुक्त सुमित स्याना से नहचौली से बैराफिरोजपुर आने वाले तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में बैठा है। इस सूचना पर स्याना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्त की निशांदाही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1- सुमित पुत्र सोमपाल सिंह निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

### बरामदगी-

- 1- आलाकत्ल चाकू
- 2- 03 रैपर OCB VIRGIN PAPER व एक लाइटर

हत्या का कारण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि वह हाल में नरेन्द्र पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम बैराफिरोजपुर थाना स्याना के क्लेशर में काम करता है। कल दिनांक 08.03.2023 को दोपहर के समय अभियुक्त सुमित बाग में बैठकर नशा कर रहा था और मोबाइल पर वीडियो देख रहा था उसी समय मुकेश का लड़का अंकित बन्दर भगाते हुए अभियुक्त के पास आया और उससे कहने लगा कि यह बाग हमारा है यहां बैठकर नशा मत करो अभियुक्त ने कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा लेकिन वह नहीं माना अभियुक्त को धक्का देकर भगाने लगा अभियुक्त सुमित नशे में था गुस्से में आकर अंकित से मारपीट करने लगा व मारपीट में गिर गया उसके बाद अभियुक्त उठा और कमर में घुसा हुआ चाकू निकालकर अंकित पर वार कर दिया, और वहां से भाग गया खेतों में छिप गया।

अभियुक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्याना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

## पुलिस टीम-

- 1- श्री सुभाष सिंह थाना प्रभारी स्याना।
- 2- का0 कपिल कुमार, का0 रूप सिंह, का0 नरेन्द्र कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर